



September 2, 2023

To.

BSE Limited

Listing Department

25th Floor, P J Towers,

Dalal Street

Mumbai -400001

Stock Code. **500456**

To,

Manager – Listing Compliances
National Stock Exchange Of India Ltd.

Exchange Plaza

Bandra Kurla Complex

Bandra (E), Mumbai-400051

Stock Code: PASUPTAC

Sub: <u>Submission of newspaper clipping of published information of 40th Annual General Meeting and</u>
Book Closure Date

Ref: Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of "Newspaper Advertisement" dated 2nd September, 2023 published in the Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) in respect of publication of notice of 40th Annual General Meeting, Remote E-voting and Book Closure.

The said advertisements are also available on the website of the Company www.pasupatiacrylon.com.

You are requested to take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Pasupati Acrylon Limited

Bharat Kapoor Company Secretary & Compliance Officer

Membership No. A54267

PASUPATI ACRYLON LIMITED

CORPORATE OFFICE: M-14, CONNAUGHT CIRCUS, MIDDLE CIRCLE, NEW DELHI – 110001 (INDIA)

Tel: EPABX - 91-11-47627400; Email: palsecretarial@gmail.com; Website: www.pasupatiacrylon.com

REGD. OFFICE & WORKS: KASHIPUR ROAD, THAKURDWARA, DIST. MORADABAD (U.P.) - 244601

Email: works@pasupatiacrylon.com; CIN: L50102UP1982PLC015532

FINANCIAL EXPRESS



HERO FINCORP LIMITED

CIN: U74899DL1991PLC046774

Regd Office: 34, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi-110057 Tel: 011-49487150 Fax: 011-49487150 Email: litigation@herofincorp.com Website: www.herofincorp.com

APPENDIX-IV-A" [SEE PROVISO TO RULE 8(6)] SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY E-AUCTION SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY IN TERMS OF SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 READ WITH PROVISO TO RULE 8(6) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrowers (B) that the below mentioned immovable property mortgaged / charged to the Secured Creditor (Hero Fincorp Limited), the physical possession mentioned below of which has been taken by the Authorized Officer of Secured Creditor (Hero Fincorp Limited), will be sold on "As is where is Basis" & "As is what is Basis" & "whatever there is Basis" & "Without recourse Basis" on below mentioned date, for recovery of amount as mentioned below, due to the Secured Creditor from the Borrower. The Reserve Price is mentioned below and the earnest money to be deposited is mentioned respectively.

Address of the Security charged Name of the Borrower (B) / Guarantors (G) / with Address covered under Auction 1. M/s Nathaniel Junior Education Society (Borrower), having its office at A-14, A-Block, DDA Colony, Munirka, New Delhi-440067 Mothers Pride, Block-A, DDA Colony, Munirka, New Delhi-110067 and also at 75, Block-1, Measuring 0.25 Acre South City-1, Gurgaon, Haryana-122001. Reserve Price (RP)

2. Mr. Anil Kumar Banbah (Guarantor), R/o 75, Block-1, South City-1, Gurgaon, Harvana-122001

3. Mrs. Suman Banbah (Guarantor), R/o 75, Block-1, South City-1, Gurgaon, Haryana-122001 Mr. Akash Gupta (Guarantor), R/o A-119, Block-A, Meera Bagh, Paschim Vihar, New

Mrs. Sudha Gupta (Guarantor), R/o A-172, Block – A, Meera Bagh, Paschim Vihar

 Mrs. Raj Rani Gupta (Guarantor), R/o A-172, Block – A, Meera Bagh, Paschim Vihar New Delhi-110087 **Outstanding Dues for** Last Date for submission | Date and Time Date/Time of On-Site Inspection of Property recovery of which of EMD and Request of E-Auction with Name of Authorized Officer property is being sold with auto letter of participation, On or Before 20.09.2023, 10.00 AM to 5.00 PM Rs.3,85,34,658/- (Rupees extension of 5 KYC, Documents, Pan Authorized Officer: Sanjeev Kumar Three Crore Eighty-Five Card, Proof of EMD etc. minutes each Lakhs Thirty-Four Thousand Mob: 9999300998

Email: sanjeev.kumar2@herofincorp.com

you can also contact: Mr. Ramesh Giri

Mob: 9643468804, ramesh.giri@ herofincorp.com

The Intending Purchasers / Bidders are required to deposit EMD amount either through RTGS / NEFT or by way of Demand Draft / Pay order in the Account No.0030310016156, Name of the Beneficiary: "Hero Fincorp Limited", IFSC Code: HDFC0000003 Terms and Conditions of the E-Auction:

 E-Auction is being held on "As is where is Basis" & "As is what is Basis" & "whatever there is Basis" & "Without recourse Basis and will be conducted "online". The E-Auction will be conducted through M/s E-Procurement Technologies Ltd. (Helpline No(s): 9173528727, 07961200576

544/594/596/531/583/569, 6351896643 and E-mail on support@auctiontiger.net/ maulik.shrimali@auctiontiger.net) at their web portal https://sarfaesi.auctiontiger.net. There is no encumbrance on the property which is in the knowledge of Secured Creditors. However, the intending bidders should make their own independent enquires regarding the encumbrances, title of property put on auction and claims,

rights/ dues/ affecting the property, prior to submitting their bids. In this regard, the E-Auction advertisement does not constitute and will not be deemed to constitute ant commitment or any representation of Hero Fincorp Limited. The Authorized Officer / Secured Creditor shall not be responsible in any way for any third party claims/ rights/ dues. The sale shall be subject to rules/ conditions/ prescribed under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002. The other terms and conditions of the E-Auction are published in the following

website: https://sarfaesi.auctiontiger.net. Date: 02.09.2023, Place: Delhi Sd/- Authorized Officer, Hero Fincorp Limited

On or before 21.09.2023

upto 5.00 PM and EMD

through RTGS/NEFT

Rs.9.00.00.000/-

EMD Amount 10% of the

Reserve Price

Incremental Amount

Rs.1,00,000/-

22.09.2023

Time: 10.00 AM

to 1.00 PM

IndiaRF

Rs.90,00,000/-



Six Hundred and Fifty Eight

only) due as on 22.08.2019

CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED

Corporate Office: Chola Crest C 54 & 55, Super B – 4, Thiru Vi Ka Industrial Estate, Guindy, Chennai-600032, India, Branch Office: 1st & 2nd Floor, Plot No.6, Main Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi - 110 005.

POSSESSION NOTICE Under Rule 8 (1)

WHEREAS the undersigned being the Authorised Officer of M/s. Cholamandalam Investment And Finance Company Limited, under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 hereinafter called the Act and in exercise of powers conferred under Section 13[12] read with Rules 3 of the Security Interest [Enforcement] Rules, 2002 issued demand notices calling upon the borrowers, whose names have been indicated in Column [B] below on dates specified in Column [C] to repay the outstanding amount indicated in Column [D] below with interest thereon within 60 days from the date of

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers in particular and the Public in general that the undersigned has taken possession of the properties mortgaged with the Company described in Column [E] herein below on the respective dates mentioned in Column [F] in exercise of the powers conferred on him under Section 13[4] of the Act read with Rule

The borrowers in particular and the Public in general are hereby cautioned not to deal with the properties mentioned in Column [E] below and any such dealings will be subject to the charge of M/s. Cholamandalam Investment And Finance Company Limited for an amount mentioned in Column [D] along with interest and other charges. Under section 13 [8] of the Securitisation Act, the borrowers can redeem the secured asset by payment of the entire outstanding

including all costs, charges and expenses before notification of sale. SL NAME AND ADDRESS OF APPLICANT 59 11 2 **DETAILS OF**

NO	& LOAN ACCOUNT NUMBER	DATE (DEMAN NOTIC	OUTSTANDI AMOUNT	PROPERTY POSSESSED	DATE OF POSSESSI
[A]	[B]	[C]	[D]	[E]	[F]
	Loan A/c No. XOHEEDL00001501517 and XOHEDET00001932268) 1. SANJAY JAIN H.NO B-79, Gali No1, Majlis Park, Adarsh Nagar, New Delhi - 110033 2. ANITA JAIN	10.06.2021	Rs. 35,80,511.45/- as on 07.06.2021	Shop No.3, Plot No. B-310, Ground Floor, Ashoka Marg, Gali No.3, Majlis Park, Delhi.	31-AUG-2023 PHYSICAL

B-79, BLOCK-B, Majlis Park Adarsh Nagar, New Delhi - 110033 3. AYUSH JAIN

H. NO – B-79, B-block, Majlis Park Adarsh Nagar, New Delhi - 110033 4. VEERA INFOTECH At: B-310, SHOP NO-3 Gali No-3, Majlis Park New Dlehi - 110033

Date:02/09/2023 Place DELHI Authorised Officer: Cholamandalam Investment And Finance Company Limited

INDIA RESURGENCE ARC PRIVATE LIMITED 3rd Floor, Unit 304, Piramal Tower, Peninsula Corporate Park, Lower Parel, Mumbai – 400013 "APPENDIX-IV-A" (SEE PROVISO TO RULE 8(6)] SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES InterestAct, 2002 read with provisoto Rule 8(6) of the Security Interest(Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described Immovable property mortgaged charged to the India Resurgence ARC Private Limited, a company incorporated under the Companies Act 2013 and registered as an Asset Reconstruction Compan pursuant to Section 3 of SARFAESI Act, 2002 vide registered assignment deed dated 01.12.202.1The under signed being the Auth orised Officer of India Resurgence ARC Private Limited has decided to sell the scheduled property on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS", and "WHATEVER THERE IS" basis for recovery of Rs 1,37,53,024.84/- (Rupees One Crore Thirty-Seven Lakhs Fifty Three Thousand Twenty Four and Paisa Eighty Four Only) as on 26.08.2020 together with interest and other contractual dues due to the Secured Creditor from Borrowers and Guarantors The reserve price and earnest money to be deposited is mentioned

Sr No	Name of Borrower, Guarantor(s) and Corporate Guarantor(s)with address/e	Description & Owner(s)of Properties	Reserve Price(RP) EMD 10% of the Reserve Price	Recovery Amount as per Demand Notice	Date & Time of On-Site Inspection of Property	Date & Time of E Auction with unlimited extension of 5 minutes each.
1	M/s J. P. Niwar Company Mr. Jaiprakash Agrawal Ms. Renu Agrawal	Plot No. A-26, A-27 & 25 (Part), Khasra No. 163 Part, Mauza Jaisinghpura Bangar, Tehsil & Distt:- Mathura	Rs.50,00,000/- (Rupees Fifty Lakhs only) Rs.5,00,000/- (Rupees Five Lakhs only)	Rs. 1,37,53,024.84/- as on 26.08.2020	18.09.2023 between 10.00 a.m to 5.00 p.m	21.09.2023 between 1.00 p.m to 2.00 p.m

EMD amount shall be remitted through NEFT / RTGS / Funds Transferin favor of in favour of "India Resurgence ARC Trust IV", RTGS/NEFT: HDFC0000060 Bank Account No. 57500000341064, HDFC Bank Ltd. Ground Floor, Jehangir Building, MG Road Fort Mumbai -400001

Last date for deposit of EMD and uploading Bid documents: 20.09.2023 upto 5.00 pm at https://www.bankauctions.com. The balance 25% of final purchaseprice minus EMD Amount shall be deposited by the successful bidder, latest by the next working day by way of RTGS / NEFT the E-Auction account of of "India Resurgence ARC Trust IV", as detailed above. The balance 75% of the final purchase shall be deposited by way of RTGS NEFT within15 days from the date of auctionin the same E-Auction accountas above. The refund of EMD to the unsuccessful bidders shall be made only in the account numbermentioned by such bidder in the Bid form within 5 working days.

a.E - Auction / bidding shall be only through "Online Electronic Bidding" through the website https://www.bankauctions.com. Bidders are advised to go throughthe website for detailed terms& process beforetaking part in the e-auction sale proceedings. b.The propertywill not be sold below the ReservePrice and accordingly the participating biddersare invited to bid more than reserveprice and may enhance their

c.EMD amount of 10% of the Reserve Price along with documents are to be deposited by way of RTGS / Demand Draft in favour of account of "India" Resurgence ARC Trust IV", RTGS/NEFT: HDFC0000060 Bank Account No. 57500000341064, HDFC Bank Ltd. on or before 20.09.2023 upto 5.30 d. E- Auction will be conducted on 21.09.2023 for 60 minutes from 1.00PM to 02:00 PM with auto extension of 5 minutes each. After payment of the

EMD amount, the intending bidders should submit a copy of the following documents / details on or befor 20.09.2023 latest by 05:30 p. m. to "India Resurgence ARC Private Limited" through Mr.Lakshay Chuttani (9878829899) , or Mr. Shakti Srivastava contact No 9811749628 (email: Shakti.Srivastava@IndiaRF.com), India Resurgence ARC Private Limited304, 3rd Floor, Piramal Towers, Peninsula Corporate Park Lower Parel, Mumbai400013 e.By hand or throughemail

i.Photocopy of Demand Draft/RTGS DETAILS towards EMD amount ii.Photocopies of KYCs such as PAN Card, ID Proof and Address Proof. However, successful bidder would have to producethese documents in originalat the time of

making payment of balance amount of 25% of bid amount. iii.Bidders Name, Contact No., Address, E-Mail Id.

iv.Bidder's A/c. details for online refundof EMD.

f. The intending biddersshould register theirnames at portal https://bankauctions.commod get their User ID and passwor d free of cost. Prospective bidde may avail online training on E- auction from the service provider M/s 4Closure, Hyderabad helpline No.: 0814200062/65/66 & email info@bankauctions.in, Contact Person: Vikas Kumar : 08142000809, 08076427383, email : vikas@bankauctions.in g.EMD depositedby the unsuccessful bidder shallbe refunded to them. The EMD shallnot carry any interest.

I. Auction would commence at Reserve Price, as mentioned above. Bidders shall enhance their offers in multiplies of Rs. 1,00,000/-. The bidder who submits the highest bid (above the Reserve price) on closure of 'Online' auction shall be declared as successful bidder. Sale shall be confirmedin favour of the successfu bidder, subject to confirmation of the same by the authorized officerof the "India Resurgence ARC Private Limited".

j.The successful bidder shall deposit 25% of the sale price (inclusive of EMD already paid), immediately on declaring him/her as the successful bidder and the balance within 15 days from the date of confirmation of sale by the authorized officer of the "India Resurgence ARC Private Limited". If the successful bidder fails to pay the sale price, the deposit made by him whatsoever shall be forfeited by the Authorized Officer without any noticeand property shall forth with be put

k.The successful bidder shall bear all expensesincluding statutory dues / taxes / bills etc. to Municipal Corporation / Society or any other authorities and fees payable for stamp duty, registration fee etc. for registration of the 'Sale Certificate'

I. "India Resurgence ARC Private Limited" does not take any responsibility to procure any permission / NOC from any Authority or under any other law in force in respect of property offered or any other dues i.e. outstanding water / electric dues, property tax or other charges if any. m.The Authorized Officer has absoluteright to accept or rejectany or all the offers / bids or adjourn/ cancel the sale withoutassigning any reasonor modify any

terms of sale withoutany prior notice. n.To the best of its knowledge and information, the "India Resurgence ARC Private Limited" is not aware of any encumbrances on the properties to be solo except of the "Secured Creditor." Interested parties should mak e their own independent inquiries regarding the encumbrances, title of the properties to thei satisfaction prior to submitting their bid. "India Resurgence ARC Private Limited" does not inany way guarantee or makes any representation with regard to the fitness/ title of the aforesaid properties.

For further details please contact Mr.Lakshay Chuttani (9878829899) and Shakti Srivastava (9811749628) or the service providerM/s 4 Closure. Hyderabad helpline No.: 0814200062/65/66 & email : info@bankauctions.in, Contact Person: Vikas Kumar : 08142000809, 08076427383, email vikas@bankauctions.in

SPECIAL INSTRUCTION / CAUTION: Bidding in the last minutes / seconds should be avoided by the bidders in their own interest. NeitherIndia Resurgence ARC Private Limitednor the Service Provide

will be responsible for any lapses/ failure (Internetfailure, Power failure, etc.) on the part of the bidderor vendor in such cases. In order to ward off such contingent situation, bidders are requested to make all the necessary arrangements/alternatives such as back—up, power supply and whatever else required so that they are able to circumvent such situation and are able to participate in the auctionsuccessfully. The Borrower / Co-Borrowers / guarantors / mortgagers are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with up to date interest and ancillary expense

before auction, failing which the auction of mortgaged property mentioned above shall take place and balance dues if any shall be recovered with interest / cost. Date - 02.09.2023

Sd/- Authorized Officer **India Resurgence ARC Pvt Ltd**

N K Textile Industries Limited Registered Office: Omaxe Square, Plot No. 14, 3rd Floor, Jasola District Centre,

Jasola, New Delhi-110025 CIN: L17299DL1983PLC163230, Tel: +91 11 61119429 Email Id: n.ktextiles123@gmail.com, Website: www.nktil.com NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 40th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, 25th September, 2023 at the Hotel, 'The Sentinel', 47, Pocket-1, Jasola, New Delhi-110025 at 3.00 P.M to transact the businesses mentioned in the Notice of Annual

sent in electronic form to those shareholders whose email address are registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent/Depository Participants, unless the Members have requested for hard copy of the same. Physical copy have been dispatched through permitted mode to all other members. The Company has completed all dispatches through e-mail and other permitted modes on Thursday 31st August, 2023. Members may note that the Annual Report, AGM Notice inter alia indicating the process and

The notice of AGM along with Annual Report, Proxy Form and Attendance Slip have been

manner of e-voting process, Proxy Form and Attendance Slip are available on Company's website www.nktil.com and can also be obtained from registered office of the Company. In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Amendments Rules, 2015 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015, the Company is pleased to provide its member the facility to exercise their right to vote by electronic means and business may be transacted through remote e-voting facility provided by National Securities Depository Limited (NSDL). The remote e-voting period commences from Thursday, 21st September, 2023 at 9.00 A.M and ends on Sunday 24th September, 2023 at 5.00 P.M. The remote e-voting shall be disabled thereafter and no e-voting will be allowed thereafter. The Board has appointed Mr. Surrinder Kishore Kapahi, Proprietor Kapahi and Associates, Company Secretaries as Scrutinizer for conducting the e-voting process in accordance with the law and in a fair and transparent manner

The voting rights of members shall be in proportion to their share in the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date of 18th September 2023. Members holding shares either in physical or in dematerialized form, on the said cut-off date, are eligible to avail the facility of remote e-voting. Any person, who acquires shares of the Company after dispatch of AGM Notice and holds such shares as of the cut-off date i.e, 18th September, 2023, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in.

At the AGM, facility for voting through ballot paper shall be made available and only the Members as on the "cut-off date" i.e, 18th September, 2023, who have not cast their votes by remote e-voting shall be entitled to exercise their rights to vote at the AGM through ballot paper. The members who have cast their votes through electronic means prior to the AGM may still attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again

The notice of AGM containing, inter-alia, the procedure of e-voting is available on the Company's website www.nktil.com and on NSDL's website https://www.evoting.nsdl.com. In case of any queries, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQS) and e-voting user manual available at the Downloads sections of https://www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the toll free no. :1800-222-990 or or write a mail to investor@masserv.com. Notice is also hereby given that that pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015, the Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from Tuesday 19th September, 2023 to Monday, 25th September, 2023 (both days inclusive) for the purpose

> For N K Textile Industries Limited Balbir Singh

> > DIN: 00027438

Place: New Delhi Date: 01.09.2023

> PASUPATI ACRYLON LIMITED CIN: L50102UP1982PLC015532 Regd. Office: Kashipur Road, Thakurdwara, Distt. Moradabad (U.P) Corp. Office: M-14, Connaught Circus (Middle Circle), New Delhi-110 001 Tel. No.: 91-11-47627400, Fax No: 91-11-47627497

of taking record of the shareholders at the Annual General Meeting

E-mail: delhi@pasupatiacrylon.com, Website: www.pasupatiacrylon.com NOTICE OF 40TH ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING & BOOK-CLOSURE INFORMATION Notice is hereby given that 40th Annual General Meeting ('AGM') of the members

2023 at 10:30 A.M. at the Registered Office of the Company at Kashipur Road Village Thakurdwara, Dist. Moradabad (U.P.) – 244601 to transact the businesses as set out in the notice of 40th AGM. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from Saturday, 23rd

September, 2023 to Friday, 29th September, 2023 (both days inclusive) for the

of Pasupati Acrylon Limited ("the Company") will be held on Friday, 29th September,

In accordance with, the General Circular No. 10/2022 dated 28th December, 2022 issued by Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P. CIR/2023/4 dated 5th January, 2023 issued by SEBI, Notice of 40th AGM and Annual Report for the financial year 2022-23 have been sent through emails to all those nembers, whose email addresses are registered with the Company/RTA or their respective Depository Participant. The dispatch of 40th AGM Notice and Annua Report through email has been completed on 31st August, 2023.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with rules made thereunder and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company is providing remote e-voting facility to its Members enabling them to cast their vote electronically on the businesses to be transacted at 40th AGM, through e-voting services provided by National Securities Depository Limited. Members may note that:

a) The resolutions set out in the Notice of 40th AGM may be transacted through voting by electronic means (Remote e-voting).

 b) Remote E-voting shall commences on Tuesday, 26th September, 2023 at 10:00 A.M. and ends on Thursday, 28th September, 2023 at 5:00 P.M. c) Cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or in the 40th AGM shall be 22nd September, 2023. d) Any person who becomes member of the Company after sending of AGM Notice

and holding shares as on cut-off date may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. P) Remote e-voting shall not be allowed beyond 5:00 P.M on 28th September, 2023

The members attending the 40th AGM, who have not cast their vote by remote e-voting, shall be able to exercise their right to vote at the 40th AGM through) A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote

through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the AGM. 1) A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the remote e-voting facility as well as voting in the AGM Annual Report and Notice of 40th AGM is available on the Company's website www.pasupatiacrylon.com and NSDL's website www.evoting.nsdl.com case of any guery/grievance connected with remote e-voting, please write an email to evoting@nsdl.co.in or helpdeskreply@mcsregistrars.com or contact Mr.

Bharat Kapoor, Company Secretary, email id: palsecretarial@gmail.com; Phone 11-47627400; Address: M – 14, Middle Circle, Connaught Place, New Delhi - 110001 For PASUPATI ACRYLON LIMITED

Date: 01.09.2023 Place: New Delhi

BHARAT KAPOOR COMPANY SECRETARY Membership No. ACS 54267

In case of

Physical

In case

of Demat

PUBLIC ANNOUNCEMENT

[Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016]

FORM A

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF IMPERIA STRUCTURES LIMITED

RELEVANT PARTICULARS Imperia Structures Limited Name of Corporate Debtor

0.0	rame of corporate bestor	imperia otractures cimitea		
2.	Date of incorporation of Corporate Debtor	05.02.2010		
3.	Authority under which Corporate Debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies, (Delhi) under Companies Act, 1956/ 2013		
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of Corporate Debtor	U45400DL2010PLC198791		
 Address of the registered office and principal office (if any) of Corporate Debtor 		Registered Office: A - 25, Mohan Co - Operative Industrial Estate Mathura Road, New Delhi-110044 Office at Gurugram: Imperia Byron Tech Park, Maidawas, Sector-62, Gurugram, Haryana-122001 Office at Greater Noida: Plot No 44-45, Knowledge Park-V, Greater Noida, Gautambuddha Nagar, Uttar Pradesh-201306		
6.	Insolvency commencement date in respect of Corporate Debtor	31.08.2023		
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	27.02.2024		
8.	Name and Registration number of the insolvency professional acting as Interim	Gaurav Katiyar Reg. No.:IBBI/IPA-001/IP-P00209/2017-18/10409		

Resolution Professional AFA valid upto: 15-11-2023 D-32, East of Kailash, New Delhi - 110065 Address & email of the interim resolution E-mail: cagauravkatiyar@gmail.com professional, as registered with the board D-32. East of Kailash, New Delhi - 110065 Address and e-mail to be used for correspondence with the Interim E-mail: isl.cirp@gmail.com Resolution Professional Last date for submission of claims 14.09.2023 Classes of creditors, if any, under clause (b) Allotees under real estate projects

of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the Interim Resolution Professional Names of insolvency professionals identified 1. Mr. Shvam Arora to act as authorised representative of creditors | Regn. No. : IBBI/IPA-002/IP-N00546/2017-2018/11703 in a class (three names for each class) 96, Aravali Apartment, Alaknanda, New Delhi -110019 2. Mr. Gulshan Gaba

(b) Details of authorized representatives

Regn. No.: IBBI/IPA-001/IP-P00548/2017-2018/10978 GH 13/882, SFS Flats, Paschim Vihar, New Delhi -110087 3. Mr. Deepak Gupta Regn. No.: IBBI/IPA-001/IP-P01340/2018-2019/12235 59; Dayanand Block, Shakarpur, New Delhi-110092 4. (a) Relevant forms and (a) Web link: https://ibbi.gov.in/home/downloads

https://ibbi.gov.in/ips-register/registered-ips

Connaught Circus, New Delhi -110001

(b) The Insolvency and Bankruptcy Board of India

IBBI) 7th Floor, Mayur Bhawan, Shankar Market,

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the Imperia Structures Limited on 31.08.2023. The creditors of Imperia Structures Limited, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 14.09.2023 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10. The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may

submit the claims with proof in person, by post or by electronic means. financial creditor belonging to a class, as listed against entry No. 12, shall indicate its choice of authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act as authorised representative of the class [Allotee under real estate project] in Form CA.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties. Gaurav Katiyar Date: 01.09.2023 Insolvency Professional for Imperia Structures Limited Place: New Delhi Regn. No.: IBBI/IPA-001/IP-P00209/2017-18/10409



BSL LIMITED

CIN: L24302RJ1970PLC002266

Regd. Office: 26, Industrial Area, Gandhi Nagar, Bhilwara - 311 001 (Rajasthan) Tel.: +91-1482-249101-102, 245000;

E-mail: accounts@bslsuitings.com; Website: www.bslltd.com

NOTICE OF THE 52ND ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

In continuation of our newspaper advertisement dated 26th August, 2023, NOTICE is hereby given that the 52nd Annual General Meeting ("AGM") of BSL Ltd ("the Company") will be held on Thursday, the 28th day of September, 2023 at 04:00 P.M. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice of the 52nd AGM without the physical presence of the members at the venue. The deemed venue for the AGM shall be the Registered Office of the Company at 26, Industrial Area, Gandhi Nagar, Bhilwara-311001, Rajasthan. The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its circular No. 10/2022 dated December 28,

2022 in furtherance of its earlier circulars (Circular No. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated

April 8th, 2020, April 13th, 2020, May 5th, 2020 respectively and subsequent circulars 02/2021,

21/2021 and 02/2022 dated January 13th, 2021, December 14th, 2021 and May 5th, 2022 as also the various circulars issued by Securities Exchange Board of India (SEBI) vide its Circular dated 5th January, 2023, (read together with Circulars dated 13th May, 2022, dated 15th January, 2021 and dated 12th May, 2020) (collectively referred as "Applicable Circulars") permitted the holding of AGM by the Companies through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ("VC/OAVM"), without the physical presence of the members at the AGM venue. In compliance with these Applicable Circulars, the 52nd AGM of the Company shall be conducted through VC/OAVM without the physical presence of the members at the AGM venue. Hence, Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only. The instructions for joining the AGM will be provided in the Notice of AGM. In compliance with the Applicable Circulars, the Notice of the 52rd AGM and the Annual Report of the Company including audited financial statements for the financial year 2022-23

along with Director's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto, have been sent on 1st September, 2023 through electronic mode to the members of the Company whose email addresses are registered with the Company /Depository Participant(s). The requirements of sending physical copies of the Notice of 52nd AGM and Annual Report to the Members have been dispensed vide Applicable Circulars. The Notice of the 52nd AGM and the Annual Report of the Company are also available on

the website of the Company at www.bslltd.com, on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and also on the website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.evoting.nsdl.com

Instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM:

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended) and the Applicable Circulars, the Company is providing facility of remote e-voting/as well as e-voting during the AGM to its Members to cast their votes electronically in respect of the business to be transacted at the AGM as set forth in the Notice of 52nd AGM provided by National Securities Depository Limited (NSDL) as the authorized agency. The manner of e-voting for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical

mode and for shareholders who have not registered their email addresses have been provided in the Notice of AGM. Login details for e-voting have been made available to the members on their registered email address. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed

from Friday, the 22nd September, 2023 to Thursday, the 28th September, 2023 (both days inclusive) for annual closing and for determining the entitlement of the shareholders to the dividend for the financial year 2022-23 as recommended by the Board of Directors of the Company, if declared by the members at the AGM. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 21st September, 2023, may cast their vote electronically. A person whose name is

the depositories as on the cut-off date i.e. 21st September, 2023 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM. The remote e-voting period commences on Sunday, the 24th September, 2023 (9:00 A.M. IST) and ends on Wednesday, the 27th September, 2023 (5:00 P.M. IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The remote e-voting shall not be

recorded in the Register of Members or in the Register of beneficial owners maintained by

allowed beyond the said date and time. The Members, whose names appear in the Register of Members/list of Beneficial Owners as on Thursday, 21st September, 2023, i.e. the date prior to the commencement of book closure, will be paid the Dividend of Rs. 1.5/- (15%) per Equity Share of the face value of Rs. 10/- each for the financial year 2022-23, as recommended by the Board, if declared at the 52nd AGM of the Company, within 30 days from the date of AGM.

The voting rights of the members shall be in proportion to their share in the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. Thursday, 21st September, 2023. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting/ e-voting at the AGM and a person who is not a member as on the cut-off date should treat the notice of the AGM for information purpose only.

In case a person has become the Member of the Company after the dispatch of Notice but on or before the cut-off date i.e. Thursday, 21st September, 2023, he/she may obtain login id and password by sending a request over at evoting@nsdl.co.in mentioning demat account number/folio number, PAN, name and registered address. Such Members may cast their votes using the e-voting instructions, in the manner specified by the Company in the Notice of 52nd AGM. However, members who are already registered with NSDL for e-voting can use their existing User id and Password for casting their vote through remote e-voting/e-voting

The facility of e-voting shall be made available at the AGM and members attending the AGM, who have not already cast their vote, may cast their vote electronically on business(es) set forth in Notice of 52nd AGM. The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the AGM.

Members, whose email address and banks details are not registered with the Company or with their respective Depository Participant/s, are requested to get their email address and bank details registered by following the steps as given below:

documents to the RTA of the Company i.e. MCS Share Transfer Agent Limited (Unit: BSL LTD), F-65, First Floor, Okhla Industrial shareholding Area, Phase-I, New Delhi-110020 or scanned copy on email at helpdeskdelhi@mcsregistrars.com and provide the following details/ documents for registering email address: a) Folio No., b) Name of shareholder, c) Email ID, d) Copy of PAN

card (self-attested), e) Copy of Aadhar (self-attested) f) Copy of share

Send a duly signed request letter in Form ISR-1 along with supporting

certificate (front and back). Following additional details/documents need to be provided in case of updating Bank Account details: a) Name and Branch of the Bank in which you wish to receive the dividend, b) the Bank Account type, c) Bank Account Number, d) MICR

Code Number, e) IFSC Code, and f) Copy of the cancelled cheque bearing the name of the first shareholder. Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address and bank account details in your demat account, as per

shareholding the process advised by your DP The Board of Directors of the Company has appointed CS Manoj Maheshwari, Practicing Company Secretary (Membership No. FCS 3355), as Scrutinizer to scrutinize the e-voting procedure in a fair and transparent manner.

The results shall be declared not later than forty-eight hours from conclusion of the meeting by posting the same on the website of the Company at www.bslltd.com, website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.evoting.nsdl.com and by filing with the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com. Members may note that the Income Tax Act, 1961 ("IT Act, 1961"), as amended by the Finance

Act, 2020, mandates that dividends paid or distributed by a Company after 1st April, 2020 shall be taxable in the hands of the Shareholders. The Company shall, therefore, be required to deduct Tax at Source (TDS) at the time of making payment of Dividend, if declared by the Shareholders at the AGM. The TDS rate would vary depending on the residential status of the shareholder and the documents submitted by them and accepted by the Company. In order to enable the Company to determine the appropriate TDS rate as applicable, Members are requested to submit the documents in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 on or before 11th September, 2023.

The shareholders are therefore requested to furnish the necessary documents/ declarations to the Company at bslagm@bslsuitings.com/Company's RTA i.e. M/s. MCS Share Transfer Agent Limited to enable the Company in applying the appropriate TDS on Dividend payment. A separate email communication informing the shareholders regarding this change in the

IT Act, 1961 as well as the relevant procedure to be adopted for submission of necessary declarations / documents by them to avail the applicable tax rate has been sent by the Company to the all shareholders on 24th July, 2023 and copy of the said communication is also available on the website of the Company www.bslltd.com.

In case of any queries/grievances, Members may refer to the "Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on 022-4866 7000 and 022-2499 7000 or send a request at evoting@nsdl.co.in. In case of any grievance connected with facility of remote e-voting or e-voting, please contact to Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL at the designated email ID: evoting@nsdl.co.in.

By order of the Board Shubham Jain Company Secretary

Place: Bhilwara Date: 1st September, 2023

New Delhi



ACS-49973



जेआईटीएफ इन्फ्रालॉजिस्टिक्स लिमिटेड

सीआईएन - L60231UP2008PLC069245 पंजीकृत कार्यालयः ए-1, यूपीएसआईडीसी इंड. एरिया, नंदगांव रोड कोसी कलां, जिला मथुरा (उ. प्र.) 281403

वेबसाइटः www.jindalinfralogistics.com, ई-मेलः contactus@jindalinfralogistics.com

16वीं वार्षिक आम बैठक के लिए सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 15वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 29 सितम्बर, 2023 को दोपहर बाद 02.30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, ए–1 यूपीएसआईडीसी इंडस्टिंयल एरिया, नंदगांव रोड, कोसी कलां, जिला मथुराँ — 281403 (उ.प्र.) में कथित वार्षिक आम बैठक रं दी गई सूचना के कार्यों के निष्पादन हेतू आयोजित की जाएगी।

31 मार्च. 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सचना उन सदस्यों को ईमेल द्वारा भेज दी गई है, जिनके पास रिकॉर्ड तिथि, यानी 25 अगस्त, 2023 तक शेयर हैं, जिनकी ईमेल आईडी कंपनी / डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत है और अन्य सभी सदस्ये को भौतिक प्रति भेज दी गई है। उक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.jindalinfralogistics.com पर भी देखे जा सकते हैं।

एतदद्वारा यह भी सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी वं विनियम ४२ (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटन आवश्यकताए) विनियम २०१५ के अनुपालन मे कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर अंतरण बहियां 23 सितम्बर, 2023 से 29 सितम्बर, 2023 (दोनों दिन शामिल) तक वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पिंठत कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम २० और सेबी (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटन आवश्यकताएं) २०१५ के विनियम ४४ वे अनुपालन में कंपनी अपने सदस्यों को दूरस्थ ई – वोटिंग की सुविधा प्रदान करती है जिससे व कंपनी की 16वीं वार्षिक आम बैठक में पारित संकल्पों पर अपने वोट इलेक्टॉनिक विधि से

सदस्य कृपया निम्नलिखित नोट करें :

- क. दरस्थ ई—वोटिंग मंगलवार, 26 सितम्बर, 2023 को सुबह 9.00 बजे आरंभ होगी और गुरूावार 28 सितम्बर, 2023 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी।
- ख. दूरस्थ ई—वोटिंग गूरूवार, 28 सितम्बर, 2023 को शाम 5.00 बजे के बाद उपलब्ध नहीं होगी। ग. दरस्थ ई–वोटिंग और मतदान के लिए वोटिंग हेत सदस्यों की पात्रता के निर्धारण की कट ऑफ तिथि 22 सितम्बर, 2023 है।
- घ. कोई व्यक्ति जो बैठक की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और उसके पास कट आफॅ तिथि 22 सितम्बर, 2023 को शयेर धारिता है तो वे आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री (प्र.) लि., कंपनी के आर एण्ड टी एजेंट बी-25/1, ओखला इंडस्टिंयल एरिया, फेज 2, नई दिल्ली—110020, फोन 011—26387320—23, फैक्सः 011—26387322, ई—मेल evoting.services@rcmcdelhi.com से संपर्क द्वारा अपने यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।
- ड. दुरस्थ ई—वोटिंग द्वारा वोट देने वाले सभी सदस्य वार्षिक आम बैठक में भाग भी ले सकते हैं किंतु उन्हें वार्षिक आम बैठक में अपना वोट देने की अनुमति नहीं होगी।
- च. मतदान के माध्यम से वोटिंग की सुविधा वार्षिक आम बैठक में केवल उन सदस्यों के लिए होगी जिन्हानें दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नही दिया है।
- छ. सदस्य वार्षिक आमसभा की सूचना में बताए गए ई–वोटिंग के अनुदेश पढें य https://evoting.nsdl.com देखें और किसी पछताछ के लिए आप सदस्यों के लिए बार बार पुछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) को देख सकते हैं और https://evoting.nsdl.com व डाउनलोड सेक्शन में सदस्यों के लिए ई-वोटिंग प्रयोक्ता मैन्अल उपलब्ध है।

जेआईटीएफ इन्फ्रालॉजिस्टिक्स लिमिटेड के लिए हस्ता /-

आलोक कुमार कम्पनी सचिव एसीएस-19819

KIMIA BIOSCIENCES LIMITED

CIN: L24239HR1993PLC032120 Regd. Off.: Vill. Bhondsi, Tehsil Sohna, Gurgaon, Haryana - 122102 Phone: +91 9654746544, 9654206544,

E-mail: compliance.kimia@gmail.com & info@kimiabiosciences.com, Web: www.kimiabiosciences.com

PUBLIC NOTICE OF CONVENING 30th ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VC/OAVM

The Thirtieth Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company will be held through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") on Saturday, September 30, 2023 at 3.30 p.m (IST) in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with all applicable circulars on the matter issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), to transact the business set out in the Notice calling the AGM.

The Notice of the AGM and the standalone audited financial statements for the financial year 2022-23, along with Board Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto, will be sent electronically to those Members of the Company, whose email address is registered with the Company/ Beetal Financial and Computer Services

Private Limited/ Depository Participants/ Depositories. The Notice of AGM and the aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.kimiabiosciences.com and on the Stock Exchange that is BSE Limited at

www.bseindia.com and on the website of Company's Registrar and Transfer Agent (RTA) Beetal Financial and Computer Services Private Limited at www.beetalfinancial.com. In case, you have not registered your email address with the Company/Depository Participant, please follow below instructions for registration of email id for obtaining Annual Report for the Financial Year 2022-23.

Physical Members holding shares in physical mode who have not registered/updated Holding | their email address with the Company are requested to register/update their email address by submitting Form ISR-1 (available on the website of the

Company) duly filled and signed along with requisite supporting documents to Beetal Financial and Computer Services Limited at Beetal House, 3rd Floor, 99, Madangir, Behind LSC, New Delhi-110062. Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered/ updated their email address with their Depository Participants are requested

to register/update the same with the Depository Participants where they maintain their demat accounts. Members can join and participate in the 30th AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the 30th AGM through VC/OAVM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-voting system of NSDL during the 30th AGM shall be provided in the Notice of 30th AGM. The notice shall also

contain the instructions with regard to login credentials for shareholders, holding shares in

physical form or in electronic form, who have not registered their email address either with

the Company or their respective Depository Participant. Members participating through

the VC/OAVM facility shall be counted for purpose of reckoning the quorum under Section

103 of the Companies Act, 2013. In case of any query/difficulty, a member may send an email to the RTA at

beetalrta@gmail.com. or Company at compliance.kimia@gmail.com. By the Order of the Board of Directors

> Lakshay Prakash **CFO & Company Secretary**

For Kimia Biosciences Limited

पंजीकृत कार्यालय : काशीपुर रोड, ठाकुरद्वारा, जिला मोरादाबाद (उ. प्र.)

कॉरपोरेट कार्यालय : एम-14, कनॉट सर्कस (मिडिल सर्कल) नई दिल्ली—110 001, फोन नं. : 91-11-47627400, फैक्स नं. : 91-11-47627497 E-mail: delhi@pasupatiacrylon.com, Website: www.pasupatiacrylon.com

40वीं वार्षिक आम समा की सूचना और

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि पसुपति एक्रिलॉन लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 40वीं वार्षिक आम सभा ('एजीएम') शुक्रवार दिनांक 29 सितंबर, 2023 को सुबह 10:30 बजे कंपनी के पंजीकत कार्यालय काशीपर रोड. ठाकरद्वारा, जिला मोरादाबाद-244601 (उ. प्र.) में आयोजित की जाएगी जिसमें 40वीं एजीएम की सचना में निर्धारित व्यवसायों का

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसार, 40वीं एजीएम के प्रयोजन के लिए कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर पुस्तकें शनिवार, 23 सितंबर, 2023 से शुक्रवार 29 सितंबर, 2023 (दोनों दिवस शामिल) तक बंद रहेंगे।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर. 2022 और परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 5 जनवरी 2023 के अनुसार सेबी द्वारा, वित्तीय वर्ष 2022—23 के लिए 40वीं एजीएम की सचना और वार्षिक रिपीट उन सभी सदस्यों को ईमेल के माध्यम से भेज दी गई है, जिनके ईमेल पते कंपनी / आरटीए या उनके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत हैं। ईमेल के माध्यम से 40वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिर्पीट का प्रेषण 31 अगस्त, 2023 को परा हो गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पिठत नियमों और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को रिमोट ई—वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है, जिससें वे नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई ई—वोटिंग सेवाओं के माध्यम से 40वीं एजीएम में किए जाने वाले व्यवसायों पर इलेक्टॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।

क) 40वीं ('एजीएम') के नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (रिमोट ई-वोटिंग) द्वारा मतदान के माध्यम से किया जा सकता है।

- ख) रिमोट ई—वोटिंग मंगलवार, 26 सितंबर, 2023 को सुबह 10:00 बजे से शुरू होगी और गुरूवार, 28 सितंबर, 2023 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी।
- ग) इलेक्टॉनिक माध्यमों से या 40वीं एजीएम में मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तारीख 22 सितंबर, 2023 होगी।
- घ) कोई भी व्यक्ति जो एजीएम नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और
- कट-ऑफ तिथि के अनसार शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.co.in. पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
- च) 28 सितंबर, 2023 को शाम 5:00 बजे के बाद रिमोट ई—वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी छ) 40वीं एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे 40वीं एजीएम में मतपत्र के माध्यम से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
- ज) कोई सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है, लेकिन उसे एजीएम में दोबारा मतदान
- करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। झ) काई व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल एजीएम में वोटिंग के
- साथ-साथ रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। ण) 40वीं एजीएम की वार्षिक रिपॉंट और नोटिस कंपनी की वेबसाईट www.pasupatiacrylon.com और NSDL की वेबसाईट www.evoting.nsdl.com

पर उपलब्ध है। रिमोट ई—वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, कृपया evoting@nsdl.co.in या helpdeskreply@mcsregistrars.com पर एक ईमेल लिखें या कंपनी सचिव श्री भारत कपूर से संपर्क करें, ईमेल आईडी : palsecretarial@gmail.com फोन : 11-47627400, पता : एम–14, मिडिल सर्कल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001

हस्ता./ दिनांक : 01.09.2023 स्थान : नई दिल्ली

भारत कपूर कपूरी सविव सदस्य सं. एसीएस 54267

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा (धारा 82 Cr.P.C. देखिए)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त पवन, पुत्र महादेव, पता: 13/255, त्रिलोकपुरी, दिल्ली, ने FIR no. 488/2018 U/s 33 Delhi Excise Act थाना कल्यानपुरी, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिख कर लौटा

दिया गया है कि उक्त पवन मिल नहीं रहा है और मुझे समाधान प्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त पवन फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)। इसलिए इसके द्वारा उदघोषणा की जाती है

कि FIR no. 488/2018 U/s 33 Delhi Excise Act थाना कल्यानपुरी, दिल्ली के उक्त अभियुक्त पवन से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 19.10.2023 को

या इससे पहले हाजिर हो। आदेशानुसार सुश्री कादम्बरी अवस्थी,

DP/9618/ED/2023

3

मुख्य महानगर दण्डाधिकारी, पूर्वी जिला न्यायालय कमरा नं. 29, कड़कड़ड्मा न्यायालय, दिल्ली

शारिका

एण्टरप्राईजेज लिमिटेड सीआईएन: L51311DL1998PLC093690

पंजी. कार्या. : एस-550-551, स्कूल ब्लॉक पार्ट-2, वेलकम प्लाजा, शकरपुर, दिल्ली, पूर्वी दिल्ली-110092 ई-मेलः info@sharikaindia.com, वेबसाइटः www.sharikaindia.com

एतदृद्वारा सचित किया जाता है कि कंपनी की 25वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) गुरुवार 28 सितंबर, 2023 को 3:00 बजे अप. में साधारण सर्क्युलर नं. 20/2020 तिथि 5 मई 2020, 10/2022 तिथि 28 दिसंबर, 2022, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी तथा सेबी द्वारा जारी सर्क्युलर नं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी 2/ सीआईआर/पी/2022/62 तिथि 13 मई, 2022, सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 तिथि 5 जनवरी, 2023 के साथ एमसीए तथा सेबी द्वारा इस संदर्भ में जारी लागू होने वाले अन्य सर्कुलर्स के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा भारतीय प्रतिभृति और विनमय बोर्ड ("सेबी") (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन में वीडियो कान्फ्रेसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") द्वारा आयोजित

की जाएगी जिसमें सभा की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा। उपरोक्त सर्क्युलर्स के अनुपालन में वित्त वर्ष 2022-23 के वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रति ऐसे सभी शेयरधारकों को भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्टस के पास सचीबद्ध हैं। 1. ईमेल पते के पंजीकरण/अद्यतनीकरण का तरीका (i) डिमैट पद्धति में कम्पनी का इक्विटी शेयर धारित करने वाले कम्पनी के ऐसे सदस्य जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत

नहीं कराये हैं, वे admin@skylinerta.com पर स्काईलाइन, फाइनांसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के पास (ii) स्पष्ट किया जात है कि ईमेल पते के स्थाई पंजीकरण के लिये शेयरधारकों से आग्रह है कि वे डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट

द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण कर अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्टस इलेक्टॉनिक धारिता के संदर्भ में अपना ईमेल पता पंजीकत करा लें। 2. 25 वीं एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2022-23 का वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट

www.sharikaindia.com, स्टॉक एक्सचैंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा सीडीएसएल की वेबसाईट https://www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध कराया जायेगा। 3. शेयरधारकों के पास इलेक्ट्रानिक वोटिंग प्रणाली द्वारा एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों पर रिमोटली अपना मतदान करने का अवसर होगा। डिमैटेरियलाइज्ड पद्धित में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों तथा ऐसे शेयरधारकों जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, के लिये रिमोटली वोटिंग की प्रक्रिया शेयरधारकों के लिये सूचना में दी जायेगी।

4. 25 वीं एजीएम की सुचना शेयरधारकों को नियत समय पर उनके पंजीकृत ईमेल पते पर लागु होने वाले कानुनों के अनुसार भेजी जाएगी। कृत्ते, शारिका एण्टरप्राईजेज लिमिटेड

तिथि : 01 सितम्बर, 2023

स्थान : नर्ड दिल्ली

कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

Kotak Mahindra Bank

स्थानः नई दिल्ली

तिथि : 01 सितंबर, 2023

NOTICE

Locker hired by **Mr.** Balvinder Kumar Verma having address at- Flat No 405 Plot No Gh7 Sec 47, Green Wood Housing Society, Gurugram with Branch of Kotak Mahindra Bank Ltd. situated at Ground Floor, Unit No 2 & 3, Block-C, Vatika Business Park, Sohna Road, Gurugram-122018 remains unoperated for the last

All the 3 letters sent to Mr. Balvinder Kumar Verma calling upon him to operate the locker has returned unserved and he is not contactable.

3 years.

It is hereby informed that despite this notice if the said locker is not operated by Mr. Balvinder Kumar Verma within 90 days from the date of this notice, break open of the said locker will be done on November 30, 2023 at around 12 p.m

kotak

NOTICE

Locker hired by Mr. Aiit

Kumar having address at-

H No 2253 Badshahpur, Nr

Mata Mandir, Gurgaon,

122001 with Branch of

Kotak Mahindra Bank Ltd.

situated at Ground Floor,

Unit No 2 & 3, Block-C,

Vatika Business Park,

Sohna Road, Gurugram-

122018 remains un-

operated for the last 3

All the 3 letters sent to Mr.

Ajit Kumar calling upon

him to operate the locker

has returned unserved

It is hereby informed that

despite this notice if the

said locker is not operated

by Mr. Ajit Kumar within

90 days from the date of

this notice, break open of

done on November 30,

2023 at around 12 p.m

the said locker will be

kotak

NOTICE

Locker hired by

Ms. Usha Marwaha having

Kotak Mahindra Bank

and he is not contactable.

years.

kotak Kotak Mahindra Bank

NOTICE

Locker hired by Ms. Vandana Sethi /Mr. Kuldeep Sethi having address at- C-1021 Sector-49 Sainik Colony Faridabad 121001 with Branch of Kotak Mahindra Bank Ltd. situated at 5E/1BP, Railway Road, NIT Faridabad Haryana - 121001 remains un-operated for the past 4 years.

All the 3 letters sent to Ms. Vandana Sethi /Mr. Kuldeep Sethi calling upon them to operate the locker has returned unserved and they are not contactable.

It is hereby informed that despite this notice if the said locker is not operated by Ms. Vandana Sethi /Mr. Kuldeep Sethi within 90 days from the date of this notice, break open of the said locker will be done on November 30, 2023 at around 12 p.m

S kotak

Kotak Mahindra Bank

Place: 01.09.2023

Date: New Delhi

NOTICE

Locker hired by Mr. Arjun Grover/Ms. Sangeeta Grover having address at- C - 957 2nd Floor Sainik Colony Sector - 49, Faridabad Haryana 121001 with Branch of Kotak Mahindra Bank Ltd. situated at 5E/1BP, Railway Road, NIT Faridabad Haryana -121001 remains unoperated for the past 4 years.

All the 3 letters sent to Mr. Arjun Grover/Ms. Sangeeta Grover calling upon them to operate the locker has returned unserved and they are not contactable.

It is hereby informed that despite this notice if the said locker is not operated by Mr. Arjun Grover/Ms. Sangeeta Grover within 90 days from the date of this notice, break open of the said locker will be done on November 30, 2023 at around 12 p.m

केनरा बैंक 🛆 Canara Bank The state of

शाखा : एसआईएस 126, हुडा मार्केट सेक्टर- 3, फरीदाबाद- 121004

कब्जा सूचना [धारा 13 (4)] (अचल सम्पत्ति के लिये) जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) (यहां के बाद ह्र अधिनियम" वर्णित) के अंतर्गत केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में 46 तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्ते शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सचना तिथि 8.6.2023 जारी कर ऋणधारक श्री हर्ष वर्धन एवं अरुण पंचाल, को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 18. 80.912.04 (रु.अठारह लाख अस्सी हजार नौ सौ बारह एवं पैसे चार मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था । ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदुद्वारा ऋणधारक तथा आम जनता

को सचित किया जाता है कि आज 29 अगस्त, 2023 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय

रु. 18, 80,912.04 (रु. अठारह लाख अस्सी हजार नौ सौ बारह एवं पैसे चार मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिये केनरा बैंक के चार्ज के अधीन होगा। ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है ।

पंजीकरण उप-जिला बल्लभगढ़ तथा जिला फरीदाबाद के भीतर आर्य नगर, भगत सिंह कालोनी के नाम से भी विदित, मौजा ऊचां गाँव में स्थित एसवाई नं./ सिटी अथवा टाउन सर्वे नं./खेवत नं. 57, रेक्ट नं. 26, किल्ला नं. 13/1 (3-7), 17/2-(0-11), 18 (6-3), 21/1 (6-12), 22/2 (1-6), 22/3 (8-2) 23 (3-10) में फ्लैट नं. प्लॉट नं/एच.नं./एमसीएफ नं.-127 (पुराना प्लाट नं. 78), माप 84 वर्ग यार्ड्स में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। **चौहदी: उत्तर**: अन्य सम्पत्ति, दक्षिणः अन्य सम्पत्ति, पूर्वः रोड, पश्चिमः रोड

अचल सम्पत्ति का विवरण

तिथि : 2.9.2023,

प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

kotak Kotak Mahindra Bank

Kotak Mahindra Bank NOTICE

Locker hired by Ms. Mini Sharma having address at- 329 Espace Nirvana Country, Sector 49 Gurugram with Branch of Kotak Mahindra Bank Ltd. situated at Ground Floor, Unit No 2 & 3, Block-C, Vatika Business Park, Sohna Road, Gurugram-122018 remains unoperated for the last

3 years. All the 3 letters sent to Ms. Mini Sharma calling upon her to operate the locker has returned unserved and she is not

contactable. It is hereby informed that despite this notice if the said locker is not operated by Ms. Mini Sharma within 90 days from the date of this notice, break open of the said locker will be done on November 30, 2023 at around 12 p.m

NOTICE

Locker hired by Ms. Poonam Devi/Mr. Inderjeet having address at-H No 294 A Block SGM Nagar NIT Faridabad 121001 Haryana with Branch of Kotak Mahindra Bank Ltd. situated at 5E/1BP, Railway Road, NIT Faridabad Haryana - 121001 remains un-operated for the

past 5 years. All the 3 letters sent to Ms. Poonam Devi/Mr. Inderjeet calling upon them to operate the locker has returned unserved and they

are not contactable. It is hereby informed that despite this notice if the said locker is not operated by Ms. Poonam Devi/Mr. Inderjeet within 90 days from the date of this notice, break open of the said locker will be done on November 30, 2023 at around 12 p.m

हिंदुस्तान एधेसिव्स लिमिटेड

सीआईएन : एल७४८९९डीएल१९८८पीएलसी०३११९१ पंजीकृत कार्यालय : बी–2/8 सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली–110029 दूरभाष: 011-41650347, फैक्स: 011-26191358, ईमेल : accounts@hindustanadhesives.com, वेबसाइट : www.bagla-group.com

शनिवार 23 सितंबर 2023 को अप. 2.00 बजे भारतीय मानक समय ("आईएसटी") पर, वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन ऑडियो–विजुअल संसाधनों (''वीसी/ओएवीएम'') सुविधा के माध्यम से, उक्त एजीएम आयोजनकारिता की सूच में संवर्णित व्यवसायों का संचालन करने के लिये किया जायेगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") साथ पठित सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल 2020, 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल 2020 20/2020 दिनांकित 5 मई 2020, 2/2022 दिनांकित 5 मई 2022, 10/2022 दिनांकित 28 दिसंबर 2022 तथ अन्य प्रासंगिक परिपत्र ("एमसीए परिपत्र") भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा निर्गत परिपत्र सेबी / एचओ / सीएफडी / पीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2023 / 4 दिनांकित 5 जनवरी 2023 ("सेबी परिपन्न") अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट 2022–23 के साथ 35वीं एजीएम की सचना केवल उन सदस्यों को इलेक्टॉनिक माध्यम प्रेषित की जायेगी, जिनके ई–मेल पते कंपनी अथवा रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट एवं डिपॉजिटरीज के साथ पंजीकृत

समाप्त कर दिया गया है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट 2022–23, अन्य बातों के साथ–साथ 35वीं एजीएम की सूचना और व्याख्यात्मक विवरण, कंपनी की वेबसाइट www.bagla-group.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों यथा www.bseindia.com पर उपलब्ध है। इसकी एक प्रति लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट अर्थात् https://instavote.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध है।

समय—समय पर संशोधितानुसार कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपन अधिनियम 2013 ('अधिनियम') की धारा 108, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा सामान्य बैठकों पर निर्गत सचिवी मानक ('एसएस–2') तथा सेबी (सुचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमावली 2015 के विनियम 44 के अनुपालन अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम में संचालित किये जानेवाले व्यवसाय के संदर्भ एजीएम से पूर्व तथा साथ ही साथ एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है तथा इस उद्देश्य के लिए कंपनी ने लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सविध प्रदान करने के लिये नियुक्त किया है।

का अनुरोध किया जाता है क. रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध होगी

बुधवार 20 सितंबर 2023 का प्रांतः 9.00 व (आईएसटी) से रिमोट ई-वोटिंग का समापन शुक्रवार 22 सितंबर 2023 को सायं 5.00 बजे

kotak Kotak Mahindra Bank

Locker hired by

Ms. Sushma having address past 5 years.

Ms. Sushma calling upon her to operate the locker has returned unserved and she is not contactable.

despite this notice if the said

इसके बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वोटिंग के लिये अक्षम व दिया जाएगा तथा सदस्यों को उक्त तिथि एवं समय के बाद इलेक्टॉनिक रूप में मतदान करने की अनमति नहीं ख. सदस्यों के वोटिंग अधिकार, शनिवार 16 सितंबर 2023 ('कट—ऑफ तिथि') के अनुसार कंपनी की प्रदत्त सम

नाम कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों की पंजिका / लाभार्थी स्वामियों की पंजिका में अभिलेखित है, केव वही व्यक्ति एजीएम से पूर्व / एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्राप्त करने का अधिकारी होगा; कोई भी व्यक्ति जो सचना के प्रेषण के उपरांत कंपनी के अंश उपार्जित करता है तथा कंपनी का एक सदस्र बनता है एवं कट-ऑफ तिथि के अनुसार अंशों का धारण करता है, वह https://instavote.linkintime.co.ir पर एक अनुरोध भेजकर रिमोट ई-वोटिंग के लिये लॉगिन-आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है तथा इर संबंध में सेवा प्राप्त करने के लिये टोल फ्री नंबर 011-41410592/93/94 एवं 022-49186000 पर संपर्क क सकता है तथा लिंक इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उपलब्धानुसार enotices@linkintime.co.in पर ईमेल भेज सकता है। एक व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि के अनुसार एक सदस्य नहीं है, उसे एजीएम की सूच

में इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपस्थित हो सकते हैं, किंतु उन्हें उसमें पुनः मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। . यदि अंशधारकों के पास ई–वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो https://instavote.linkintime.co.in पर सहायता अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (''एफएक्यु'') और इंस्टावोट ई–वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं अथवा enotices@linkintime.co.in पर एव ईमेल लिख सकते हैं या दूरभाष : 022 - 49186000 पर कॉल कर सकते हैं।

श्री मुकेश कुमार अग्रवाल, व्यवसायरत् कंपनी सचिव को एजीएम में अपनाई जाने वाली रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। . कृपया ध्यान दें कि एक बार जब आप रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल देते हैं, तो आप अपन वोट को संशोधित नहीं कर सकते हैं या एजीएम में किसी पोल पर वोट नहीं कर सकते हैं। हालाँकि, आ एजीएम में भाग ले सकते हैं और चर्चा में भाग ले सकते हैं।

ा. रिमोट ई–वोटिंग के समेकित परिणाम जो एजीएम में लिए जा सकते हैं. कंपनी द्वारा उनकी घोषणा एजीएम के 2 दिनों के भीतर की जायेगी और उन्हें कंपनी और रिमोट ई-वोटिंग एजेंसी की वेबसाइटों पर प्रदर्शित किया जायेगा और स्टॉक एक्सचेंजों को भी उन्हें संप्रेषित किया जायेगा।

अनुसार सदस्यों की पंजिका में अथवा डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों की पंजिका में दर्ज

हिंदुस्तान एधेसिव्स लिमिटेड के लिये तथा उसकी ओर से मधुसूदन बागल

कृते पस्पति एक्रिलॉन लिमिटेड

Chola कार्पारेट कार्यालय : चोला क्रेस्ट, सी 54 एवं 55, सुपर बी–4, थिरू वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिन्डी, चेन्नई–600032, भारत शाखा कार्यालय : प्रथम एवं द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 6, मेन पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 (नियम 8(1) के तहत) जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों क

प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, इसमें आगे अधिनियम कहा गया है, के अधीन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन

नियमावली 2002 के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना(एं) कालम (सी)

चोलामंडलम इब्वेस्टमेंट ऐण्ड फायबैंस कम्पनी लिमिटेड

में वर्णित तिथियों को जारी की थीं, जिसमें कर्जदारों, जिनके नाम कालम (बी) में निदर्शित किए गए हैं, से कालम (डी) में निदर्शित बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतदद्वारा कर्जदार(रों) को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पिठत उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कालम (ई) में वर्णित कम्पनी के पास बंधक संपत्ति का कब्जा कालम (एफ) में निदर्शित तिथियों को प्राप्त कर लिया है।

कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को कालम (ई) में वर्णित संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतू सावधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड की कालम (डी) में निदर्शित बकाया राशि और उस पर ब्याज के प्रभाराधीन होगा। प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 13 (8) के तहत कर्जदार बिक्री की अधिसूचना से पहले पूरी बकाया राशि सभी लागतों, प्रभारों तथा खर्चों सहित चुकाकर प्रत्याभूत आस्ति छुड़ा सकते हैं।

सं.	तथा ऋण खाता संख्या	सूचना की तिथि	बकाया राशि	कब्जे में ली गई सम्पत्ति का विवरण	कब्जा की तिथि
(ए)	(ৰী)	(सी)	(ভী)	(ई)	(एफ)
1.	ऋण खाता सं. X0HEEDL00001501517 एवं X0HEDET00001932268) 1. संजय जैन एच. नंबर बी—79, गली नंबर 1, मजलिस पार्क, आदर्श नगर, नई दिल्ली—110033 2. अनीता जैन बी—79, ब्लॉक—बी, मजलिस पार्क, आदर्श नगर, नई दिल्ली—110033	10-06-2021	रू. 35,80,511,45 / – 07—06—2021 तक	दुकान नंबर 3, प्लॉट नंबर बी—310, भू तल, अशोक मार्ग गली नंबर 3, मजलिस पार्क, दिल्ली	31—08—2023 भौतिक

एच. नंबर बी-79, बी-ब्लॉक, मजलिस पार्क, आदर्श नगर, नई दिल्ली-110033

पता : बी–310, दुकान नंबर 3, गली नंबर 3, मजलिस पार्क, नई दिल्ली–110033 तिथि : 02-09-2023 स्थान : दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी : मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

KARVY FINANCE

कॉपोरेंट कार्यालयः मैसर्स कार्वी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, 301, तीसरी मंजिल, गुजराल हाउस, 167 सीएसटी रोड, कोलिवेरी एरिया गांव, कलिना, सांताक्रूज (ई), मुंबई - 400098. ई-मेल : reddy.laxma@karvy.com; संपर्क नंबर: 9010191999

निजी संधि के माध्यम से बिक्री की सुचना

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के तहत प्रतिभृत परिसंपत्ति संपत्ति प्लॉट नंबर के-15, प्रथम, द्वितीय और तृतीय क समस्त भाग, छत के अधिकार के साथ, खसरा नंबर 18/26, न्यू गोबिंद पुरा एक्सटेंशन, गांव - खुरेजी खास, इलाका शाहदरा, दिल्ली -110051, माप 28.84 वर्ग मीटर, स्वामित्व कार्वी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (प्रतिभृत ऋणदाता) के पास स्वामित्व विलेख जमा करके गिरवी रखी सम्पत्ति की बिक्री

के लिए 15 दिनों की सचना । सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत दिनांक 27 अप्रैल 2022 को मांग नोटिस की तामील के बावजूद, आप, उपरोक्त नामित कर्जदार और गारंटर उक्त नोटिस के 60 दिनों के भीतर मांगी गई राशि का भुगतान करने में विफल रहे और कार्वी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूत आस्ति संपत्ति प्लॉट नंबर के-15 का समस्त भाग, छत के अधिकार के साथ पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल, खसरा नंबर 18/26 न्यू गोबिंद पुरा एक्सटेंशन, ग्राम - खुरेजी खास, इलाका शाहदरा, दिल्ली -110051, माप 28.84 वर्ग मीटर ('प्रतिभृत संपत्ति') का सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13 (4) और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (1) और (2) के प्रावधानों के अनुसार कब्जा कर लिया। इसके बाद सरकार द्वारा अनुमोदित मुल्य से प्रतिभृत संपत्ति का मुल्यांकन प्राप्त किया गया और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (5) के अनुपाल

में आरक्षित मुल्य तय किया गया। प्रतिभृत संपत्ति. प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के प्रासंगिक नियमों के उचित अनुपालन के बाद, जिसमें आपको नियम 8(6) के तहत आवश्यक दिनांक 28.03.2023 को 30 दिनों का नोटिस देना शामिल था, उसके बाद नीलामी सूचना दिनांक 29.04.2023 दो प्रमुख समाचार पत्रों में एक हिंदी भाष में और दूसरा अंग्रेजी भाषा में जिनका दिल्ली में पर्याप्त प्रसार है, 28.03.2023 को प्रकाशित करके नीलामी पर रखा गया। हालाँकि, प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के अनुसार नीलामी नोटिस प्रकाशित करने और व्यापक प्रचार करने के बावजूद, उक्त नीलामी आरक्षित मूल्य **रु.** 36,00,000∕- (रुपये छत्तीस लाख मात्र) पर विफल रही। आप नीलामी नोटिस में प्रकाशित तिथि से पहले प्रतिभत लेनदार को सभी लागतों

शुल्कों और खर्चों सहित बकाया राशि का भूगतान करने में भी विफल रहे। पनः, प्रतिभत संपत्ति को, प्रतिभित हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के प्रासंगिक नियमों के उचित अनुपालन के बाद, जिसमें आपको नियम 8 (6) और नियम 9 (1) के तहत अपेक्षित 15 दिवसीय नोटिस दिनांक 04.05.2023 देना शामिल था, नीलामी सूचना दिनांक 19.05.2023 को दिल्ली में पर्याप्त प्रसार वाले दो प्रमख समाचार पत्रों एक हिंदी भाषा में और दूसरा अंग्रेजी भाषा में 04.05.2023 को प्रकाशित करके नीलामी पर रखा गया। हालाँकि, प्रतिभित हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) और नियम 9(1) के प्रावधान के अनुसार नीलामी नोटिस प्रकाशित करने और व्यापक प्रचार करने वे बावजूद, उक्त नीलामी भी विफल रही, क्योंकि हमें **रु. 32,40,000/- (रुपए बत्तीस लाख चालीस हजार मात्र)** के आरक्षित मूल्य पर नीलामी नोटिस दिनांक 19.05.23 की शर्तों के अनुसार 18.05.2023 को या उससे पहले कोई जमा धरोहर राशि (ईएमडी) नहीं प्राप्त हुई। आप नीलामी नोटिस में प्रकाशित

पुनः, प्रतिभूत संपत्ति को, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के प्रासंगिक नियमों के उचित अनुपालन के बाद, जिसमें आपको नियम 8 (6) और नियम 9 (1) के तहत अपेक्षित 15 दिवसीय सूचना दिनांक 09.06.2023 देना शामिल था, उसके बाद दिनांक 09.06.2023 को दिल्ली में पर्याप्त प्रसार वाले दो प्रमुख समाचार पत्रों एक हिंदी भाषा में और दूसरा अंग्रेजी भाषा में नीलामी नोटिस दिनांक 24.06.2023 को प्रकाशित करके नीलामी पर रख गया। हालाँकि, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) और नियम 9(1) के प्रावधानों के अनुसार नीलामी नोटिस प्रकाशित करने और व्यापक प्रचार करने के बावजूद, उक्त नीलामी भी विफल रही, क्योंकि हमें **रु**. 29,16,000/- (**रुपए उनतीस लाख सोलह हजार मात्र**) के आरक्षित मूल्य पर नीलामी नोटिस दिनांक 24.06.23 की शर्तों के अनुसार 23.06.2023 को या उससे पहले कोई जमा धरोहर राशि (ईएमडी) नहीं प्राप्त हुई। आप नीलामी नोटिस में प्रकाशित तिथि से पहले प्रतिभूत लेनदार को सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों सहित बकाया राशि का भुगतान करने में भी विफल रहे चुंकि उपरोक्त आरक्षित मुल्य पर कोई बोली प्राप्त न होने के कारण उपरोक्त सार्वजनिक नीलामी विफल हो गई और बिक्री फिर से आयोजित करने की

तिथि से पहले प्रतिभृत लेनदार को सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों सिहत बकाया राशि का भगतान करने में भी विफल रहे।

आवश्यकता है, इसलिए आरक्षित मूल्य रु. 23,60,000/- (रुपये तेईस लाख साठ हजार रुपए मात्र) है। 12 जुलाई 2023 तक देय रु. 3209165/- (रुपये बत्तीस लाख नौ हजार एक सौ पैंसठ मात्र) के प्रतिभूत ऋण और वसूली की तिथि तक आगे के ब्याज और अन्य खर्चों की वसली के लिए प्रतिभत संपत्ति को फिर से निजी संधि के माध्यम से बिक्री के लिए रखा जा रहा है और नीलामी नोटिस के प्रकाशन को प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) और नियम 9 (1) के प्रावधानों के अनुपालन में प्रभावी किया जा रहा है। आपका ध्यान प्रतिभृत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (8) के

प्रावधानों की ओर भी आकर्षित किया जाता है। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के प्रावधानों के अनुपालन में, आपको यह 15 दिवसीय नोटिस दिया जा रहा है और आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रतिभूत आस्ति को इस सूचना की तिथि से स्पष्ट 15 दिनों के बाद 19.09.2023 को या उसके बाद निजी संधि के माध्यम से

इस नोटिस में आपसे 19.69.2023 को या उससे पहले नीचे उल्लिखित परिसर से अपना सभी सामान, चल-अचल वस्तुएं हटाने का भी आह्वान किया जाता है। उल्लिखित समय सीमा के बाद उक्त वस्तुओं की किसी भी क्षति/हानि के लिए केएफएसएल जिम्मेदार नहीं होगा।

ı				
l	कर्जदार का नाम एवं पता तथा खाता सं.	बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण	बिक्री/आरक्षित मूल्य (रु.)	वसूली हेतु बकाया देय जिसके लिए सम्पत्ति⁄यां बेची जा रही हैं
ı	ऋण् खाता सं. SL02DLH0000757	प्लॉट नंबर के-15, छत के अधिकार के		12 जुलाई, 2023 तक कुल बकाया
ı	1. मैसर्स गाबा ट्रेडर्स,	साथ पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल,		
ı	2. पंकज गाबा	खसरा नंबर 18/26, न्यू गोबिंद पुरा	साठ हजार मात्र)	हजार एक सौ पैंसठ मात्र)
ı	3. अरुणा गांबा	एक्सटेंशन, गांव- खुरेजी खास, इलाका		
ı	4. अशोक गाबा	शाहदरा, दिल्ली -110051, माप 28.84 वर्ग		
ı	5. वैशाली अहिरवार	गज		
ı	सभी का पता : के-15, गली-35 न्यू गोविंदपुरा			
ı	एक्सटेंशन, कृष्णा नगर, पूर्वी दिल्ली 110051			

श्री अनिल दबे

कार्वी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (अधिकृत प्राधिकारी)

तिथि : 1 सितम्बर, 2023 स्थान : दिल्ली

around 12 p.m www.readwhere.com

address at- C/O Urastan Metal Industries Plot No 125 DLF Area Phase 1 Faridabad 121003 Haryana with Branch of Kotak Mahindra Bank Ltd. situated at 5E/1BP, Railway Road, NIT Faridabad Harvana - 121001 remains un-operated for the past 7 years.

All the 3 letters sent to Ms. Usha Marwaha calling upon her to operate the locker has returned unserved and she is not contactable. It is hereby informed that

despite this notice if the said locker is not operated by Ms. Usha Marwaha within 90 days from the date of this notice, break open of the said locker will be done on November 30, 2023 at

kotak Kotak Mahindra Bank

NOTICE

Locker hired by Mr. Gaurav

Kundra/Ms. Somya Madan having address at-B-504 Parsunath Greenvile, Opposite Omax Gurgaon, Mall Sector-48, Sohna Road with Branch of Kotak Mahindra Bank Ltd. situated at Ground Floor, Unit No 2 & 3, Block-C, Vatika Business Park, Sohna Road, Gurugram-122018 remains un-operated for the last 3 years.

All the 3 letters sent to Mr. Gaurav Kundra/Ms. Somya Madan calling upon them to operate the locker has returned unserved and they are not contactable.

It is hereby informed that despite this notice if the said locker is not operated by Mr. Gaurav Kundra/Ms. Somya Madan within 90 days from the date of this notice, break open of the said locker will be done on November 30, 2023 at around 12 p.m

at- 5 M 7 NIT, FARIDABAD 121001 Haryana with Branch of Kotak Mahindra Bank Ltd. situated at 5E/1BP, Railway Road, NIT Faridabad Haryana - 121001 remains un-operated for the All the 3 letters sent to

It is hereby informed that

locker is not operated by Ms. Sushma within 90 days from the date of this notice, break open of the said locker will be done on November 30, 2023 at around 12 p.m

NOTICE

एतदद्वारा सचित किया जाता है कि कंपनी के अंशधारकों की 35वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का आयोजन

एजीएम की सूचना की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता को एमसीए परिपत्र और सेबी परिपत्र के माध्यम

रिमोट ई-वोटिंग के विस्तत अनदेश एजीएम की सचना में दिये गये हैं। सदस्यों से निम्नलिखित पर ध्यान देने

(आईएसटी) तक

अंश पंजी के उनके अंश के अनपात में होंगे। रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली की सविधा बैठक के दौरान भी उपलब्ध करायीं जायेगी तथा बैठक में उपस्थित होनेवाले सदस्यगण, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वज्ञरा पहले अपने वोद नहीं डाले हैं, वे भी बैठक के दौरान अपने वोट अधिकार का प्रयोग करन में समर्थ होंगे। एक व्यक्ति जिसव

को केवल जानकारी उददेश्यों के रूप में विचारार्थ स्वीाकार करना चाहिये। ं. ऐसे सदस्यगण जिन्होंने बैठक से पूर्व रिमोट ई—वोटिंग के द्वारा अपने वोट डाल दिये हैं हालांकि वे भी बैठव

एतदद्वारा यह दोहराया जा रहा है कि जिन व्यक्तियों के नाम कट—ऑफ तिथि अर्थात 16 सितंबर 2023

केवल वे ही रिमोट अभ्यास में भाग लेने के हकदार होंगे।

दिनांक : 02 सितंबर 2023

स्थान : नई दिल्ली

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 10 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 9 के अनसार कंपनी के सदस्यों की पंजिका और शेयर टांसफर बहियां वित्त वर्ष 2022–23 के लिए एजीएम उद्देश्यार्थ 17 सितंबर 2023 से लेकर के 23 सितंबर, 2023 (दोनों दिन सिम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

> (प्रबंध निदेशक डीआईएन-0142564